

[This question paper contains 4 printed pages.]

(22)

Your Roll No...2023

आपका अनुक्रमांक.....



Sr. No. of Question Paper : 3468

Unique Paper Code : 62324407

Name of the Paper : Introduction to International Relations

Name of the Course : B.A. (Program) Political Science

पाठ्यक्रम का नाम : बी.ए. (प्रोग्राम) राजनीति विज्ञान

Semester/Annual : V
सेमेस्टर/वार्षिक

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 75

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **Any Four** questions.
3. **All** questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिये ।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. Morgenthau's Realism has made significant contribution to the study of International Relations Discuss.

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मॉर्गेन्थाऊ के यथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । टिप्पणी कीजिए ।

2. Examine the Neo-Realist approach of structural relations as propounded by Kenneth Waltz.

कनेथ वॉल्टज द्वारा प्रतिपादित नव यथार्थवादी उपागम का परीक्षण कीजिए ।

3. Critically examine the World System theory of Immanuel Wallerstein.

इमानुएल वॉलस्टाइन के विश्व व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

4. What is Detente? Discuss the causes responsible for the collapse of Detente.

देतांत क्या है? देतांत के पतन के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए।

5. Critically evaluate the factors responsible for the end of Cold War and it's impact on international politics.

शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

6. Is there a paradigm shift in India's foreign policy in post-cold war era? Give reasons with reference to the objective and principles of India's foreign policy.

क्या उत्तर शीतकाल युग में भारत की विदेश नीति में प्रतिमान विस्थापन हुआ है? भारत की विदेश नीति के उद्देश्य एवं सिद्धांतों के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

7. Discuss India's role as an emerging power in the contemporary era of multipolar world.

वर्तमान बहुधुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका का वर्णन करें।

8. Write short notes on **Any Two** of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) Feminist Approach in International Relations

अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी परिपेक्ष

(b) Causes of the Second World War

द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण

(c) Dependency Theory

पराश्रय सिद्धान्त

(d) European Union

यूरोपीय संघ